

## पुलिस और आबकारी टीम ने की छापेमारी



Publish Date: Wed, 10 Feb 2021 11:30 PM (IST) Author: **Jagran**

सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गेंदपुर गांव के निकट स्थित देसी शराब की दुकान पर पुलिस और आबकारी टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मिश्रित शराब समेत कई नकली वस्तुएं भी बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपित दुकान संचालक और सेल्समैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। जबकि दुकान संचालक फरार हो गया।

जेएनएन, बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गेंदपुर गांव के निकट स्थित देसी शराब की दुकान पर पुलिस और आबकारी टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मिश्रित शराब समेत कई नकली वस्तुएं भी बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपित दुकान संचालक और सेल्समैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। जबकि दुकान संचालक फरार हो गया।

कोतवाल जितेन्द्र सिंह बालियान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के गांव गेंदपुर के पास स्थित देसी शराब की दुकान पर तैनात सेल्समैन द्वारा मिश्रित शराब बनाकर उसे बिक्री करने की शिकायत मिल रही थी। इसकी सूचना आबकारी टीम को भेजी गयी। इस पर पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुखबिर के बताए हुए स्थान पर छापेमारी की। बताया कि मौके से मिश्रित शराब बेच रहे सेल्समैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में मौके से अवैध शराब के 37 पच्चे मिस इण्डिया मार्का, नकली 186 क्यूआर कोड, 195 नकली जिदा ढक्कन बरामद किये हैं। क्यूआर कोड की स्कैनर से जांच करने पर सर सादीलाल डिस्टिलरी केमिकल वर्क्स ए यूनिट आफ एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड मंसूरपुर मुजफ्फरनगर बता रहा है। जांच पड़ताल के यह सब नकली पाया गया। मामले में पुलिस ने आरोपित दुकान सेल्समैन ब्रजेश पुत्र सरदार सिंह निवासी गांव दोतई, गढ़मुक्तेश्वर जबकि अवधेश शर्मा पुत्र लाखन शर्मा एचएन 1/135 यमुना बिहार, भजनपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक आरोपित ब्रजेश पुत्र सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि अवधेश शर्मा पुत्र लाखन शर्मा की पुलिस तलाश कर रही है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bulandshahr-police-and-excise-team-raided-21356461.html>